

भारतीय मानक ब्यूरो
पूर्वी क्षेत्रीय प्रयोगशाला - कोलकाता

हमारा संदर्भ : पू.क्षे.प्र./प्र.मा.यो/ओएसएल -5116334

02 मई 2019

विषय : सीपेट- हल्दीया की मान्यता का नवीकरण ।

सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन अनुसार मेसर्स सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक्स इंजीनियरिंग एवं टेक्नोलॉजी (सीपेट) सिटी सेन्टर, पो: देभोग, हल्दीया-721657, पुरब मेदिनीपुर की मान्यता को 15 दिसम्बर 2018 से तीन वर्षों के लिए नवीकृत किए जाने को मंजूरी दी है ।

प्रयोगशाला का मान्यता क्षेत्र अनुबंध-1 में दिया गया है ।

द्वैपायन भद्र
वैज्ञानिक – डी ,प्र. अधि. (प्र. मा. यो.)

प्रतिलिपि :

- आईटीएस- भा. मा. ब्यूरो द्वारा सभी संबन्धित के सूचना के लिए

BUREAU OF INDIAN STANDARDS
EROL-KOLKATA

Our Ref: EROL/LRS/ OSL-5116334

02 May 2019

Subject: Renewal of Recognition of CIPET-Haldia

As approved by the Competent Authority, the recognition of Central Institute of Plastics Engineering & Technology (CIPET), City Centre, P.O. Debhog, Haldia-721657, Dist- Purba Medinipur has been renewed for three year w.e.f. 15 Dec 2018 under BIS Laboratory Recognition Scheme 2018.

The recognized Scope of the laboratory is enclosed at Annex-1.

Dwaipayan Bhadra
Sc-D, OIC (LRS)

CC:

- ITSD, BIS HQ – With a request to upload this circular on BIS intranet for information of all concerned

OSL CODE: **5116334**

Name: M/s Central Institute of Plastics Engineering & Technology (CIPET)

Address: City Centre, P.O. Debhog

Dist- Purba Medinipur,

Haldia-721657

Contact: Dr. P K MANDAL, Sr. Lecturer

Mob. 8170044113

Telephone:- 03224-255444,255404,255534

E-mail: cipethaldia.testing@gmail.com

cipet.haldia@gmail.com

Sl. No.	IS Code	IS Title	Testing Charges (In Rs.) (Excl. GST) (Valid upto to 11.02.2021)	Remarks
1.	4984:2016	H.D. Polyethylene Pipes for Potable Water Supplies, Sewage and Industrial Effluents	25,100/- (Excl. Raw Material Rates)	For sizes upto 355 mm DN
2.	4985:2000	Unplasticised PVC Pipes for Potable water Supplies	20,250/- (Elastomeric Sealing Ring Socket); 15,900/- (Plain Ended/Socket Ended); 7,650/- (Plumbing); (Excl. Raw Material Rates)	For sizes upto 355 mm DN. VCM Content Test sub-contracted to CIPET, Ahemdabad
3.	7834 (Part-1): 1987	Injection Moulded PVC Socket Fittings with Solvent Cement Joints For Water Supplies.	4,250/-; 3,100/- (PVC Resin)	-
4.	10124(Pt 1) :2009	Fabricated PVC Fittings for Potable Water Supplies	1,450/-	-
5.	10124(Pt 2) :2009	Fabricated PVC Fittings for Potable Water Supplies	1,450/-	For sizes upto 355 mm nominal size
6.	11652:2017	Textiles – Woven Sacks for Packing Cement-High Density Polyethylene (HDPE)/ Polypropylene (PP)	6,550/-	-
7.	12701:1996	Rotational Moulded Polyethylene Water Storage Tanks	13,850/- (above 1500 litres); 13,200/- (upto 1500 litres); (Excl. Raw Material Rates)	For capacity up to 7500 litre of cylindrical vertical tank and full range of rectangular loft tank
8.	12786:1989	Irrigation Equipment Polyethylene Pipes	7,450/-; 5,200/- (for Raw Material)	except anti-oxidant test
9.	12818:2010	UPVC Screen and Casing Pipes for Bore/ Tubewell	8,300/- (Plain Screen); 7,800/- (Ribbed screen) (Excl. PVC Resin)	VCM Content Test sub-contracted to CIPET Ahemdabad
10.	13592:2013	UPVC Pipes for Soil and Waste Discharge System Inside Building including Ventillation and Rain Water System	Type-A: 12,400/-; Type-B: 12,750/- (Excl. Optional Test rates)	-
11.	14151(Pt.-1): 1999	Irrigation Equipment Sprinkler Pipes- Polyethylene Pipes	14,550/-; (Excl. Raw Material Rates)	except anti-oxidant test
12.	14151(Pt.-2): 2008	Irrigation Equipment Sprinkler Pipes- Polyethylene Pipes	800/- (Excl. Raw Material Rates)	except anti-oxidant test & metallic couplers
13.	14182:1994	Solvent Cement for use with UPVC pipe and Fittings	8,050/-	-
14.	14333:1996	HDPE pipe for Sewerage	8,700/-	For sizes upto 355 mm DN & except anti-oxidant test
15.	14735:1999	UPVC Injection Moulding Fittings For Soil & Waste Discharge	Tee, bend, reducer, coupler, socket plug...etc.); 8,150/-	-
16.	15410:2003	Container For Packaging of Natural Mineral Water & Pacakged Drinking Water	6,950/-	-
17.	15801:2008	PP Random Co-polymer Pipes for Hot and Cold Water Supplies	1,07,550/-; 3,850/- (Raw Material)	-